

**\*प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 27.11.2022\***

**\*जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थाना पुलिस द्वारा भिन्न-2 सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते\***

**\*21 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 23070/- रुपये सहित ताश के पत्ते बरामद।\***

श्री एस0 आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण के पर्यवेक्षण में एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में जनपद शाहजहाँपुर पुलिस के थाना रामचन्द्र मिशन, थाना खुदागंज, थाना रोजा एवं थाना कोतवाली की पुलिस टीमों द्वारा अलग-अलग स्थानों से जुआ खेलते हुए कुल 21 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल रु0 23070/- बरामद किये गये। थानों पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*थाना रामचन्द्र मिशन-\***

दिनांक 26.11.2022 को श्री महेन्द्र सिंह यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के नेतृत्व में थाना रामचन्द्र मिशन की पुलिस टीम द्वारा पक्का पुल के पास से 07 अभियुक्तों 1.जहूर पुत्र मदी 2.गौतम पुत्र रामखिलावन 3.अमित पुत्र शिवराज 4.शन्नू पुत्र कामिल 5.शिवम पुत्र महेन्द्र 6.आशीष पुत्र रामचरण 7.प्रदीप पुत्र रामेश्वरदयाल को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 9700/- रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद हुए।

**\*थाना खुदागंज-\***

श्री रवि कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना खुदागंज के नेतृत्व में थाना खुदागंज की पुलिस टीम द्वारा महादेव मंदिर के पास से 05 अभियुक्तों 1.अवधेश पुत्र शुगन 2.शिपू पुत्र रामगोपाल 3.वीर बहादुर पुत्र ओमप्रकाश 4.महेश पुत्र अजयपाल 5.मुकेश पुत्र ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 9770/- रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद हुए।

**\*थाना रोजा-\***

श्री कुंवरबहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में थाना रोजा की पुलिस टीम द्वारा 05 अभियुक्तों 1.इस्लाम पुत्र बाबू 2.फरमान पुत्र इसवर 3.सद्दीक पुत्र इस्माइल 4.निसार अहमद पुत्र नूर अहमद 5.इकरार पुत्र नबीउल्ला को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 1850/- रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद हुए।

**\*थाना कोतवाली-\***

श्री बृजेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्तों 1.मनीष कुमार पुत्र सुरेशचन्द्र 2.रामचरण पुत्र भैसेप्रसाद 3.कौशल राठौर पुत्र ब्रहानन्द 4.अजय शंखवार पुत्र गंगाराम को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 1750/- रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद हुए।

**\*कुल गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या- 21 अभियुक्त\***

**\*बरामदगी का विवरण:-\*** कुल 23070/- रुपये नगद व 208 ताश के पत्ते।